#### LORENZINI APPARELS LIMITED

(An ISO 9001:2015 Certified Company)

CIN: L17120DL2007PLC163192



Date: 27.12.2023

To,

Secretary, Secretary,

Listing Department Listing Department

BSE Limited, National Stock Exchange Limited,

Phiroze Jeejeebhoy Towers Exchange Plaza, C-1, Block G, Bandra (E), Dalal Street, Mumbai- 400001 Exchange Plaza, C-1, Block G, Bandra (E), Bandra Kurla Complex, Mumbai – 400051

Scrip Code: 540952 Symbol: LAL

Dear Sir/Ma'am,

#### Sub: Newspaper advertisement for dispatch of Notice of Postal Ballot

Pursuant to the Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we enclosed herewith copies of the notice published in the Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) of Wednesday, 27 December, 2023 regarding electronic dispatch of Notice of Postal Ballot.

This information will also be hosted on the Company's website.

We request you to kindly take this on your record and oblige.

Thanking You,

For Lorenzini Apparels Limited

(Sandeep Jain)
Managing Director & Chief Financial Officer
DIN: 02365790

Encl.: As above.

#### **FINANCIAL EXPRESS**

KWA-JB-GL-6-1886-2023-24

Section 108 & 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 ("the Act) read with Rule 20 & 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 (Listing regulations), Secretarial Standard-2 on General Meetings( the SS-2) the Company as on Tuesday, December 26, 2023 completed the dispatch of the postal ballot notice through electronic mail to the members whose email IDs are registered in the records of depository participants as on Friday, December 22, 2023 for seeking approval of the shareholders of the Company by postal ballot, including voting by electronic means or, for the following matters:

Item No.	Description of the Resolution(s)
1	To approve the appointment of Ms. Supreet Kaur Rekhi (DIN: 10409347) as a Director (Non-Executive, Non-Independent) of the Company.

of providing e-voting facility to all its members. Members are requested to note that the voting through postal ballot including voting by electronic mode shall commence from Wednesday, December 27, 2023 at 09.00 A.M IST and ends on Thursday, January 25, 2024 at 5.00 P.M. IST. The Board of Directors has appointed M/s Pawan Mahur & Associates as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot/e-voting process in a fair and transparent manner. Notice is available on the website of the Company i.e.www.monteil.in) and of the Stock Exchanges i.e., BSE Limited and the National Stock Exchange of India Limited respectively. The result of the voting by postal ballot will be announced on or before Tuesday, January 30, 2024, at the registered office of the Company. The result will be displayed at the registered office and on the website of the company and intimate stock exchange on which the shares of the company are listed. In case you have any queries or issues regarding e-voting, shareholders are requested to contact, Skyline Financial Services Pvt. Ltd. at D-153A, 1st Floor, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020, email: info@skylinerta.com. By Lorenzini Apparels Limited

Sandeep Jain Managing Director & Chief Financial Officer | DIN: 02365790

## KERALA WATER AUTHORITY e-Tender Notice

JJM - pipe laying and road restoration work in Poruvazhy panchayath and construction of 10m dia intake well cum pump house and aproach road and sub station building near Njankadavu. EMD: Rs. 200000, Tender fee Rs. 11025 + 1985, Last Date for submitting Tender: 11-01-2024 02:00:pm, Phone : 04742745293 **Website**: www.kwa.kerala.gov.in, www.etenders.kerala.gov.in

> Superintending Engineer **PH Circle**

## "IMPORTANT"

vynlist care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.



continued from previous page

#### **BID/ OFFER PERIOD**

#### ANCHOR INVESTOR BID / OFFER PERIOD OPENED AND CLOSED ON MONDAY, DECEMBER 18, 2023 BID / OFFER OPENED ON TUESDAY, DECEMBER 19, 2023 BID / OFFER CLOSED ON THURSDAY, DECEMBER 21, 2023

The Offer was made through the Book Building Process, in terms of Rule 19(2)(b) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957 read with Regulation 31 of the SEBI ICDR Regulations and in compliance with Regulation 6(1) of the SEBI ICDR Regulations, wherein not more than 50% of the Offer was allocated on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("QIBs") ("QIB Portion"), provided that our Company in consultation with the BRLMs, allocated up to 60% of the QIB Portion to Anchor Investors on a discretionary basis in accordance with the SEBI ICDR Regulations ("Anchor Investor Portion"), of which one-third was reserved for domestic Mutual Funds, subject to valid Bids being received from domestic Mutual Funds at or above the Anchor Investor Allocation Price. In the event of under-subscription, or non-allocation in the Anchor Investor Portion, the balance Equity Shares were added to QIB Portion (other than the Anchor Investor Portion) (the "Net QIB Portion"). Further, 5% of the Net QIB Portion was available for allocation on a proportionate basis only to Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price, and the remainder of the Net QIB Portion was available for allocation on a proportionate basis to all QIBs, including Mutual Funds. Further, not less than 15% of the Offer was available for allocation to Non-Institutional Bidders and not less than 35% of the Offer was available for allocation to Retail Individual Bidders in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price. One-third of the Non-Institutional Portion was available for allocation to Non-Institutional Bidders with a Bid size of more than ₹200,000 and up to ₹1,000,000 and two-third of the Non-Institutional Portion was available for allocation to Non-Institutional Bidders with a Bid size of more than ₹1,000,000 provided that under-subscription in either of these two sub-categories of the Non-Institutional Portion may be allocated to Non-Institutional Bidders in the other sub-category of Non-Institutional Portion in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price. All potential Bidders (except Anchor Investors) are mandatorily required to participate in the Offer through the Application Supported by Blocked Amount ("ASBA") process by providing details of their respective ASBA accounts and UPI ID in case of UPI Bidders (defined herein), as applicable, pursuant to which their corresponding Bid Amount will be blocked by the Self Certified Syndicate Banks ("SCSBs") or by the Sponsor Bank(s) under the UPI Mechanism, as the case may be, to the extent of the respective Bid Amounts. Anchor Investors are not permitted to participate in the Offer through the ASBA process. For details, see "Offer Procedure" on page 328 of the Prospectus. The bidding for Anchor Investor opened and closed on December 18, 2023. The Company received 11 applications from 11 Anchor Investors for 6,321,734 Equity Shares. The Anchor Investor Offer Price was finalized at ₹280 per Equity Share. A total of 5,890,488 Equity Shares were allocated under the Anchor Investor Portion aggregating to ₹ 1,649,336,640. The Offer received 2,325,865 applications for 720,094,358 Equity Shares (including applications from Anchor Investors and prior to rejections) resulting in 36.67 times subscription

The details of the applications received in the Offer from Retail Individual Bidders, Non-Institutional Bidders and QIBs are as under (before rejections):

SI. NO.	CATEGORY	NO. OF APPLICATIONS APPLIED	NO. OF EQUITY SHARES	AS PER PROSPECTUS	NO. OF TIMES SUBSCRIBED	AMOUNT (₹)
A	Retail Individual Bidders	2,227,487	138,012,159	6,872,236	20.08	38,644,756,921.00
В	Non-Institutional Bidders – More than ₹ 2 lakhs and upto ₹10 lakhs	70,839	54,742,110	981,748	55.76	15,327,305,638.00
C	Non-Institutional Bidders – More than ₹10 lakhs	27,443	101,350,628	1,963,496	51.62	28,377,827,100.00
D	Qualified Institutional Bidders (excluding Anchors Investors)	85	419,667,727	3,926,992	106.87	117,506,963,560.00
Ε	Anchor Investors	11	6,321,734	5,890,488	1.07	1,770,085,520.00
4.7.	TOTAL	2,325,865	720,094,358	19,634,960	36.67	201,626,938,739.00

A summary of the final demand as per NSE and BSE as on the Bid/Offer Closing Date at different Bid prices is as under

Sr. No	Bid Price (₹)	No. of Equity Shares	% to Total	Cumulative Total	Cumulative % of Total
1	266	290,175	0.04	290,175	0.04
2	267	18,603	0.00	308,778	0.04
3	268	9,858	0.00	318,636	0.04
4	269	9,169	0.00	327,805	0.04
5	270	159,954	0.02	487,759	0.07
6	271	10,600	0.00	498,359	0.07
7	272	17,384	0.00	515,743	0.07
8	273	25,599	0.00	541,342	0.07
9	274	9,116	0.00	550,458	0.07
10	275	119,568	0.02	670,026	0.09
11	276	10,441	0.00	680,467	0.09
12	277	11,289	0.00	691,756	0.09
13	278	117,978	0.02	809,734	0.11
14	279	149,407	0.02	959,141	0.13
15	280	600,775,458	81.32	601,734,599	81.45
16	CUT-OFF	137,035,634	18.55	738,770,233	100.00
	TOTAL	738,770,233	100.00	27774722232410	500000

The Basis of Allotment was finalized in consultation with the Designated Stock Exchange, being BSE on December 22, 2023.

## A. Allotment to Retail Individual Bidders (After Rejections) (including ASBA Applications)

The Basis of Allotment to the Retail Individual Bidders, who have bid at cut-off or at the Offer Price of ₹280 per Equity, was finalized in consultation with BSE. This category has been subscribed to the extent of 19.47 times. The total number of Equity Shares Allotted in Retail Individual Bidders category is 6,872,236 Equity Shares to 129,664 successful

Sr. No	Category	No. of Applications Received	% of Total	Total No. of Equity Shares Applied	% to Total	No. of Equity Shares Allotted per Bidder	Ratio	Total No. of Equity Shares Allotted
1	53	2,030,027	93.98	107,591,431	80.42	53	26:433	6,458,792
2	106	71,526	3.31	7,581,756	5.67	53	26:433	227,582
3	159	20,881	0.97	3,320,079	2.48	53	26:433	66,462
4	212	9,127	0.42	1,934,924	1.45	53	26:433	29,044
5	265 7,370 0.34		1,953,050	1.46	53	26:433	23,426	
6	318	2,883	0.13	916,794	0.69	53	26:433	9,169
7	371	3,174	0.15	1,177,554	0.88	53	26:433	10,123
8	424	1,085	0.05	460,040	0.34	53	26:433	3,445
9	477	740	0.03	352,980	0.26	53	26:433	2,332
10	530	3,104	0.14	1,645,120	1.23	53	26:433	9,858
11	583	520	0.02	303,160	0.23	53	26:433	1,643
12	636	570	0.03	362,520	0.27	53	26:433	1,802
13	689	8,970	0.42	6,180,330	4.62	53	26:433	28,514
		7800 Allottees from Seri	al no 2 to 13 Add	litional 1(one) share		1	44:7800	44
	TOTAL	2,159,977	100.00	133,779,738	100.00			6,872,236

B. Allotment to Non-Institutional Bidders (more than ₹0.20 million and upto ₹1 million) (After Rejections) (including ASBA Applications) The Basis of Allotment to the Non-Institutional Bidders (more than ₹ 0.20 million and upto ₹1 million), who have bid at the Offer Price of ₹ 280 per Equity Share or above, was

finalized in consultation with BSE. This category has been subscribed to the extent of 54.72 times. The total number of Equity Shares allotted in this category is 981,748 Equity

Sr. No	Category	No. of Applications Received	% of Total	Total No. of Equity Shares Applied	% to Total	No. of Equity Shares Allotted per Bidder	Ratio	Total No. of Equity Shares Allotted
1	742	65573	94.27	48,655,166	90.57	742	7:368	925,274
2	795	1391	2.00	1,105,845	2.06	743	26:1391	19,318
3	848	356	0.51	301,888	0.56	743	7:356	5,201
4	901	190	0.27	171,190	0.32	743	4:190	2,972
5	954	116	0.17	110,664	0.21	743	2:116	1,486
6	1,007	100	0.14	100,700	0.19	743	2:100	1,486
7	1,060	340	0.49	360,400	0.67	743	6:340	4,458
8	1,113	117	0.17	130,221	0.24	743	2:117	1,486
9	1,166	35	0.05	40,810	0.08	743	1:35	743
10	1,272	30	0.04	38,160	0.07	743	1:30	743
11	1,325	50	0.07	66,250	0.12	743	1:50	743
12	1,431	48	0.07	68,688	0.13	743	1:48	743
13	1,484	145	0.21	215,180	0.40	743	3:145	2,229
14	1,590	99	0.14	157,410	0.29	743	2:99	1,486
15	1,749	296	0.43	517,704	0.96	743	6:296	4,458
16	1,802	116	0.17	209,032	0.39	743	2:116	1,486
17	1,855	35	0.05	64,925	0.12	743	1:35	743
18	2,120	55	0.08	116,600	0.22	743	1:55	743
19	3,551	175	0.25	621,425	1.16	743	3:175	2,229
501	1,219	22	0.03	26,818	0.05	743	0:22	0
502	1,378	15	0.02	20,670	0.04	743	0:15	0
503	1,537	17	0.02	26,129	0.05	743	0:17	0
504	1,643	7	0.01	11,501	0.02	743	0:7	0
05	1,696	19	0.03	32,224	0.06	743	0:19	0
506	1,908	8	0.01	15,264	0.03	743	0:8	0
507	1,961	11	0.02	21,571	0.04	743	0:11	0
808	2,014	7	0.01	14,098	0.03	743	0:7	0
509	2,067	- 11	0.02	22,737	0.04	743	0:11	.0
510	2,173	8	0.01	17,384	0.03	743	0:8	0
511	2,226	18	0.03	40,068	0.07	743	0:18	0
512	2,279	3	0.00	6,837	0.01	743	0:3	0
513	2,332	4	0.01	9,328	0.02	743	0:4	0
14	2,385	12	0.02	28,620	0.05	743	0:12	0
515	2,438	2	0.00	4,876	0.01	743	0:2	0
516	2,491	11	0.02	27,401	0.05	743	0:11	0
517	2,544	6	0.01	15,264	0.03	743	0:6	0
18	2,597	2	0.00	5,194	0.01	743	0:2	0
519	2,650	23	0.03	60,950	0.11	743	0:23	0
520	2,703	3	0.00	8,109	0.02	743	0:3	0
521	2,756	5	0.01	13,780	0.03	743	0:5	0
522	2,809	18	0.03	50,562	0.09	743	0:18	0
523	2,862	8	0.01	22,896	0.04	743	0:8	0
524	2,915	5	0.01	14,575	0.03	743	0:5	0

Sr. No	Category	No. of Applications Received	% of Total	Total No. of Equity Shares Applied	% to Total	No. of Equity Shares Allotted per Bidder	Ratio	Total No. of Equity Shares Allotted
525	2,968	6	0.01	17,808	0.03	743	0:6	0
526	3,021	1	0.00	3,021	0.01	743	0:1	0
527	3,074	3	0.00	9,222	0.02	743	0:3	0
528	3,180	8	0.01	25,440	0.05	743	0:8	0
529	3,233	1	0.00	3,233	0.01	743	0:1	0
530	3,286	5	0.01	16,430	0.03	743	0:5	0
531	3,339	5	0.01	16,695	0.03	743	0:5	0
532	3,392	2	0.00	6,784	0.01	743	0:2	0
533	3,445	12	0.02	41,340	0.08	743	0:12	0
534	3,498	3	0.00	10,494	0.02	743	0:3	0
535	All app	licants from Serial no 501	to 534 for 1 (one	) lot of 743 shares	191811.50	743	5:291	3,715
536		6 Allottees from Serial no 2				1	6:76	6
	TOTAL	69558	100	53,719,581	100			981,748

C. Allotment to Non-Institutional Bidders (more than₹1 million) (After Rejections) (including ASBA Applications)

The Basis of Allotment to the Non-Institutional Bidders (more than ₹1 million), who have bid at the Offer Price of ₹280 per Equity Share or above, was finalized in consultation with BSE. This category has been subscribed to the extent of 51.04 times. The total number of Equity Shares allotted in this category is 1,963,496 Equity Shares to 2,646 successful applicants. The category-wise details of the Basis of Allotment are as under: (Sample)

Sr. No	Category	No. of Applications Received	% of Total	Total No. of Equity Shares Applied	% to Total	No. of Equity Shares Allotted per Bidder	Ratio	Total No. of Equit Shares Allotted
1	3,604	25809	95.10	93,015,636	92.81	742	4:41	1,867,614
2	3,657	286	1.05	1,045,902	1.04	742	28:286	20,776
3	3,710	267	0.98	990,570	0.99	742	26:267	19,292
4	3,763	79	0.29	297,277	0.30	742	8:79	5,936
5	3,816	53	0.20	202,248	0.20	742	5:53	3,710
6	3,869	22	0.08	85,118	0.08	742	2:22	1,484
7	3,922	36	0.13	141,192	0.14	742	4:36	2,968
8	3,975	74	0.27	294,150	0.29	742	7:74	5,194
9	4,028	37	0.14	149,036	0.15	742	4:37	2,968
10	4,081	9	0.03	36,729	0.04	742	1:9	742
11	4,134	10	0.04	41,340	0.04	742	1:10	742
12	4,187	11	0.04	46,057	0.05	742	1:11	742
13	4,240	26	0.10	110,240	0.11	742	3:26	2,226
14	4,293	11	0.04	47,223	0.05	742	1:11	742
15	4,346	9	0.03	39,114	0.04	742	1:9	742
16	4,399	12	0.04	52,788	0.05	742	1:12	742
17	4,452	8	0.03	35,616	0.04	742	1:8	742
18	4,717	12	0.04	56,604	0.06	742	1:12	742
19	4,770	6	0.02	28,620	0.03	742	1:6	742
20	4,876	7	0.03	34,132	0.03	742	1:7	742
21	4,929	29	0.11	142,941	0.14	742	3:29	2,226
22	5,300	48	0.18	254,400	0.25	742	5:48	3,710
23	5,353	9	0.03	48,177	0.05	742	1:9	742
24	5,406	7	0.03	37,842	0.04	742	1:7	742
25	5,618	7	0.03	39,326	0.04	742	1:7	742
26	5,671	9	0.03	51,039	0.05	742	1:9	742
27	5,724	7	0.03	40,068	0.04	742	1:7	742
28	5,777	6	0.02	34,662	0.03	742	1:6	742
29	5,883	13	0.05	76,479	0.08	742	1:13	742
30	6,572	14	0.05	92,008	0.09	742	1:14	742
31	6,678	6	0.02	40,068	0.04	742	1:6	742
32	7,102	6	0.02	42,612	0.04	742	1:6	742
33	7,155	8	0.02	57,240	0.04	742	1:8	742
34	7,420	6	0.03	44,520	0.04	742	1:6	742
35			0.02	3600000000	10.00000	742	999	742
	7,526	6	2000000	45,156	0.05	27711000	1:6	300000
36	8,904	20.700	0.02	53,424	0.05	742	1:6	742
37	9,010	8	0.03	72,080	0.07	742	1:8	742
38	10,600	6	0.02	63,600	0.06	742	1:6	742
001	4,505	4	0.01	18,020	0.02	742	0:4	0
003	4,611	3	0.01	13,833	0.01	742	0:3	0
004	4,823	2	0.01	9,646	0.01	742	0:2	0
800	5,194	5	0.02	25,970	0.03	742	0:5	0
009	5,459	4	0.01	21,836	0.02	742	0:4	0
051	14,310	3	0.01	42,930	0.04	742	0:3	0
055	17,808	3	0.01	53,424	0.05	742	0:3	0
056	17,861	4	0.01	71,444	0.07	742	0:4	0
057	18,020	4	0.01	72,080	0.07	742	0:4	0
060	21,200	4	0.01	84,800	0.08	742	0:4	0
062	24,433	2	0.01	48,866	0.05	742	0:2	0
063	25,228	2	0.01	50,456	0.05	742	0:2	0
064	26,235	2	0.01	52,470	0.05	742	0:2	0
065	26,500	5	0.02	132,500	0.13	742	0:5	0
072	53,000	2	0.01	106,000	0.11	742	0:2	0
076	121,423	1	0.00	121,423	0.12	742	0:1	0
077	F	All applicants from Serial n	o 1001 to 1076 fo	or 1 (one) lot of 742 shares	S	742	8:153	5,936
078		2646 Allottees from Se	rial no 1 to 1077	Additional 1(one) share		1	1:16	164
	TOTAL	27 420	400	400 224 272	100			4 002 400

TOTAL 27,138 D. Allotment to QIBs (After Rejections)

Allotment to QIBs, who have bid at the Offer Price of ₹280 per Equity Share or above, has been done on a proportionate basis in consultation with BSE. This category has been subscribed to the extent of 106.87 times of Net QIB portion. As per the SEBI ICDR Regulations, Mutual Funds were allotted 5% of the Equity Shares of Net QIB portion available i.e. 196,350 Equity Shares and other QIBs and unsatisfied demand of Mutual Funds were allotted the remaining available Equity Shares i.e. 3,730,642 Equity Shares on a proportionate basis. The total number of Equity Shares allotted in the QIB category is 3,926,992 Equity Shares, which were allotted to 85 successful Applicants.

100

CATEGORY	FI'S/BANK'S	MF'S	IC'S	NBFC'S	AIF	FPC/FPI'S	VC'S	TOTAL
ALLOTMENT	2,239,412	234,306	132,132	269,599	64,015	987,528	20	3,926,992

100,224,272

E. Allotment to Anchor Investors (After Rejections) The Company, in consultation with the BRLM, have allocated 5,890,488 Equity Shares to 11 Anchor Investors (through 11 Anchor Investor Application Forms) (including 3 domestic Mutual Funds through 3 schemes) at an Anchor Offer Issue Price at ₹280 per Equity Share in accordance with SEBLICDR Regulations. This represents 60% of the OIB portion.

CATEGORY	FI'S/BANK'S	MF'S	IC'S	NBFC'S	AIF	FPC/FPI'S	OTHERS	TOTAL
ALLOTMENT	-	2,499,167	2,284,941	213,436		892,944	4	5,890,488

The IPO Committee of our Company at its meeting held on December 22, 2023 has taken on record the basis of allotment of Equity Shares approved by the Designated Stock Exchange, being BSE and has transferred the Equity Shares to various successful applicants. The Allotment Advice Cum Refund Intimation and/or notices have been dispatched to the address of the investors as registered with the depositories. Further, instructions to the SCSBs have been issued for unblocking of funds and transfer to the Public Offer Account on December 22, 2023 and the payments to non-syndicate brokers have been issued on December 26, 2023. In case the same is not received within ten days, investors may contact the Registrar to the Offer at the address given below. The Equity Shares allotted to the successful allottees have been uploaded on December 26, 2023 for credit into the respective beneficiary accounts subject to validation of the account details with the depositories concerned. The Company has filed the Listing application with BSE and NSE on December 26, 2023. The Company has received the listing and trading approval from BSE & NSE, and trading will commence on December 27, 2023.

Note: All capitalized terms used and not defined herein shall have the respective meanings assigned to them in the Prospectus. INVESTORS PLEASE NOTE

100

## These details of the Allotment made was hosted on the website of Registrar to the Offer, Link Intime India Private Limited at www.linkintime.co.in

All future correspondence in this regard may kindly be addressed to the Registrar to the Offer quoting full name of the First/ Sole applicant, Serial number of the Bid cum Application form number, Bidders DP ID, Client ID, PAN, date of submission of Bid cum Application Form, address of the Bidder, number of Equity Shares bid for, name of the Member of the Syndicate, place where the bid was submitted and payment details at the address given below:



Link Intime India Private Limited

C-101, 1" Floor, 247 Park, L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai 400 083 Maharashtra, India. Telephone: +91 81081 14949; E-mail: credobrands.ipo@linkintime.co.in Website: www.linkintime.co.in; Investor grievance e-mail: credobrands.ipo@linkintime.co.in; Contact Person: Shanti Gopalkrishnan; SEBI Registration No.: INR000004058

For CREDO BRANDS MARKETING LIMITED On behalf of the Board of Directors

section titled "Risk Factors" beginning on page 27 of the Prospectus. Potential investors should not rely on the DRHP for making any investment decision.

Sanjay Kumar Mutha

1,963,496

Date: December 26, 2023 Company Secretary & Compliance Officer THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES ON LISTING OR THE BUSINESS

PROSPECTS OF CREDO BRANDS MARKETING LIMITED. CREDO BRANDS MARKETING LIMITED has filed a Prospectus dated December 21, 2023 with the RoC (the "Prospectus"). The Prospectus is made available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in as well as on the websites of the BRLMs i.e., DAM Capital Advisors Limited at www.damcapital.in, ICICI Securities Limited at www.icicisecurities.com and Keynote Financial Services Limited at www.keynoteindia.net, the website of the NSE at www.nseindia.com and the website of the BSE at www.bseindia.com and the website of the

Company at www.credobrands.in. Any potential investor should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to such risks, please see the

The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933 (the "U.S. Securities Act") or any state securities laws in the United States, and unless so registered, and may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable U.S. state securities laws. Accordingly, the Equity Shares are being offered and sold outside the United States in "offshore transactions" as defined in and in reliance on Regulation S and the applicable laws of each jurisdictions where such offers and sales are made. There will be no public offering of the Equity Shares in the United States. CONCEPT

financialexp.epapr.in

Place: Mumbai

New Delhi

#### [कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में 1 एक राज्य से दूसरे राज्य में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिये समाचार पत्र में प्रकाशन के लिये विज्ञापन

केन्द्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र नई दिल्ली के समक्ष कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4)

तथा कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के क्लॉज (ए) के मामले में स्पोर्टस लाइफस्टाइल प्राईवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालयः 204, आकाशदीप बिल्डिंग नं. 26-ए.

बाराखम्बा रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 में है

(CIN: U18101DL2007PTC162551) के मामले एतदहारा आम जनता को सचित किया जाता है कि ''रा.रा. क्षेत्र दिल्ली'' से "हरियाणा राज्य'' में कम्पनी रजिस्ट्रार, रा.रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा के अंतर्गत उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए मंगलवार, 24 जनवरी, 2023 को कम्पनी

के पंजीकृत कार्यालय 204, आकाशदीप बिल्डिंग नं. 26-ए, बाराखम्बा रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 में आयोजित अ-साधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह आवेदक कंपनी केन्द्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके नीचे वर्णित

पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, 2रा तल, पं. दीन दयाल अन्त्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स. नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें: 204. आकाशदीप बिल्डिंग नं. 26-ए, बाराखम्बा रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001

कत्ते एवं के लिये. स्पोर्टस लाइफ स्टाइल प्राईवेट लिमिटेड मोहित नारंग निदेशक **DIN:** 09045160

पता: 221/3, गढी मोहल्ला, सेक्टर-18 के निकट, ओल्ड फरीदाबाद, हरियाणा-121002 तिथि: 27 दिसम्बर, 2023 स्थानः दिल्ली

## POSTAL BALLOT NOTICE TO MEMBERS

The Members of Lorenzini Apparels Limited ("the Company") are hereby informed that pursuant to Section 108 & 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 ("the Act) read with Rule 20 & 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 (Listing regulations), Secretarial Standard-2 on General Meetings( the SS-2) the Company as on Tuesday, December 26, 2023 completed the dispatch of the postal ballot notice through electronic mail to the members whose email IDs are registered in the records of depository participants as on Friday, December 22, 2023 for seeking approval of the shareholders of the Company by postal ballot, including voting by electronic means or, for the following matters:

Item No.	Description of the Resolution(s)
1	To approve the appointment of Ms. Supreet Kaur Rekhi (DIN: 1040934

The Company has engaged the services of Central Depository Securities Limited (CDSL) for the purpose of providing e-voting facility to all its members. Members are requested to note that the voting through postal ballot including voting by electronic mode shall commence from Wednesday, December 27, 2023 at 09.00 A.M IST and ends on Thursday, January 25, 2024 at 5.00 P.M. IST. The Board of Directors has appointed M/s Pawan Mahur & Associates as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot/e-voting process in a fair and transparent manner. Notice is available on the website of the Company i.e.www.monteil.in) and of the Stock Exchanges i.e., BSE Limited and the National Stock Exchange o India Limited respectively. The result of the voting by postal ballot will be announced on or before Tuesday, January 30, 2024, at the registered office of the Company. The result will be displayed at the egistered office and on the website of the company and intimate stock exchange on which the shares of the company are listed in case you have any queries or issues regarding e-voting, shareholders are requested to contact, Skyline Financial Services Pvt. Ltd. at D-153A, 1st Floor, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020, email: info@skylinerta.com.

> Sandeep Jain Managing Director & Chief Financial Officer | DIN: 02365790

## कार्यालय ग्रा.पं.इटौरा, वि.खं. ददरौल, शाहजहांपुर

समस्त जीएसटी में पंजीकृत फर्मों को सुचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत इटौरा, विकास खण्ड-ददरौल में वित्तीय वर्षे 2023-24 में 15वां वित्त आयोग. पंचम वित्त आयोग, स्वच्छ भारत मिशन व मनरेगा की की धनराशि से ग्राम पंचायत विकास योजना से स्वीकृत निम्नलिखित कार्य कराये जाने हैं। अतः इन कार्यों हेत् प्राक्कलन के अनुसार निमार्ण सामग्री की आपूर्ति हेत् दिनांक 27.012.2023 को सायं 05 बजे तक सीलबन्द निविदायें ग्राम पंचायत कार्यालय में आमंत्रित की जाती हैं। निविदाएं दिनांक 29.12.2023 को 11 बजे निविदादाताओं/उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जाएंगी। किसी भी निविदा को अस्वीकृत करने का अधिकार

क्रम	कार्य का नाम	आवश्यक सामग्री
संख्य		
1	मैन रोड से हरीराम के मकान तक नाली व इण्टरलाकिंग,	
	मिट्टी कार्य मनरेगा से। अनु.ला. 3.995 लाख।	
2	रामचन्द्र के मकान से भग्गा महातिया के मकान तक	रेता/ बजरी/
	इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य। अनु.ला 4.95 लाख।	मौरंग/ महीन
3	हवलदार के मकान से भमरा रोड तक इण्टरलाकिंग निर्माण	रेता, ईंट, ईंट
	कार्य। अनु. ला 4.08 लाख	रोड़ी, बजरी,
4	मेन रोड से गुड्डू वर्मा के मकान तक इण्टरलाकिंग निर्माण	इण्टुरलाकिंग
	कार्य। अनु. ला 0.664लाख	ब्लॉक
5	दीपू के मकान से तालाब तक नाली निर्माण कार्य।	

अभ्यक्ति- मात्रा एवं सामग्री की पूर्ण जानकारी ग्रा.पं. कार्यालय से सम्पर्क कर ला जा सकता है। जिसका सूचना कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा है

|अन्. ला.- 1.04 लाख

# ALACRITY SECURITIES LTD.

CIN: L99999MH1994PLC083912 Regd. Office: 101, Haridarshan, B-wing, Bhogilal Phadia Road, Kandivali (E), Mumbai - 400067. Email: alacritysec@gmail.com;

Website: www.alacritysec.com; Tel: 022-28073460 / 28076537 Notice of Postal Ballot

Members are hereby informed that pursuant to Section 110 of the Companies Act, 2013, read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") dated April 8 2020, May 5, 2020, May 5, 2022, December 28, 2022 and September 25, 2023 and other applicable provisions, including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force, Alacrity Securities Limited ("the Company") seeks approval of Members of the Company, as detailed in the Postal Ballot Notice dated December 23, 2023.

The Company has on December 26, 2023 completed the dispatch of the Postal Ballo Notice to the Members whose names appear on the Register of Members/List of Beneficial Owners as received from the National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) at their registered email ids. Members whose names appeared on the register of Members/List of Beneficial Owners as on Friday, December 15, 2023 i.e. the cut-off date, will be considered eligible for the purpose of voting. A person who is not a member as on Friday, December 15, 2023 i.e. the cut-off for reckoning voting rights, should treat this Notice for Information purposes only. In accordance with the above mentioned Circulars, Postal Ballot forms and Business Reply Envelopes have not been sent to the Members. The communication of the assent or dissent of the Members would take place through the remote e-voting system only.

Members holding shares in dematerialized mode are requested to register/update their email addresses with the relevant Depository Participants. Members holding shares in physical mode are requested to update their email addresses with the Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA), Bigshare Services Pvt. Ltd. at ipo@bigshareonline.com with a copy to alacritysec@gmail.com sending a scanned copy of the signed request letter mentioning their Folio No., name, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar card) for registering email address.

In compliance with provisions of Section 110 of the Act read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Company is offering remote e-voting facility to the Members of the Company. The Company has entered into an arrangement with Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") for facilitating remote e-voting services. The login credentials for casting the votes through remote e-voting have been sent to the shareholders along with the Notice of Postal Ballot. The detailed procedure for casting of votes through remote e-voting has been provided in the Notice. The details will also be made available on the website of the Company.

The remote e-voting period shall commence on Wednesday, December 27, 2023 at 9:00 a.m. and end on Thursday, January 25, 2024 at 5:00 p.m. Members may cast their vote electronically during the aforesaid period. The remote e-voting module shall be disabled at 5:00 p.m., on Thursday, January 25, 2024 and remote e-voting shall not be allowed beyond that same.

The Board of Directors has appointed M/s. Jaymin Modi & Co., Practicing Company Secretaries, as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot process in a fair and transparent manner. The results of the Postal Ballot will be announced on or before Saturday, January 27, 2024. The result would be intimated to the Stock Exchanges where the Company's shares are listed and displayed along with the Scrutinizer's report on the Company's website viz. alacritysec@gmail.com

All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call at toll free no. 1800 22 55 33

For Alacrity Securities Limited

Kruppa Gandhi Date: December 26, 2023 Company Secretary Place: Mumbai

#### तद्द्वारा सूचित किया जाता है कि **एस्कोर्ट्स कुबोटा लिमिटेड** के नीचे वर्णित इक्विटी शेयरों के प्रमाण के गुम/स्थानच्युत होने की सूचना मिली है। अंतरण प्रलेख के बिना, उसकी उपयुक्त सूचना एस्कोर्ट्स कुबोटा लिमिटेड को दी गई है तथा मैं/हमने ड्प्लिकेट शेयर प्रमाणपत्रों को जारी करने के लिये आवेदन किया है। क्रम शेयरधारक का फोलिओ प्रमाणपत्र

सं.	नाम		सं.	सं.	सं.		
1.			126020	5172775 - 5172824	50		
2.	§		136749	1436039 - 1436052	14		
3.	मोह. शमीम	ESC0089652	136749	1563410 - 1563425	16		
4.	अनीस		136749	3067661 - 3067670	10		
5.			136749	3813381 - 3813390	10		
6.	3		140572	5253868 - 5253917	50		
7.	9		360302	2170315 - 2170364	50		
शेयरों की कुल सं. 200 शेयर्स एफवाई रु. 1							
यदि वि	यदि किसी व्यक्ति का उक्त शेयरों के संदर्भ में कोई दावे हो. वे दस्तावेजीय प्रमाण के साथ ऐसे दावे इस तिथि से 15						

दिनों के भीतर उसके पंजीकृत कार्यालय 15/5, मथुरा रोड, फरीदाबाद, हरियाणा-121003 में एस्कोर्ट्स कुबोटा लिमिटेड के पास दाखिल करें अन्यथा एस्कोर्ट्स कुबोटा लिमिटेड ड्रिप्लिकेट प्रमाणपत्र जारी करने के लिये अग्रसर स्थानः दिल्ली शेयरधारक/दावेदार का नाम

मौजूदा कंपनियों के लाइसेंस रद्द करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन फॉर्म नं. आईएनसी-19

## सूचना

[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 22 के अनुसार] नोटिस दिया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 की उप–धारा (4) (पप) के अनुसरण में, मैसर्स रिसॉल्व ट् सेव लाइव्स इंडिया फाउंडेशन द्वारा कंपनी अधिनियम की धारा 8 (5) के तहत जारी लाइसेंस को रद्द करने के लिए दिल्ली में कंपनी रजिस्ट्रार, एनसीटी दिल्ली और हरियाणा को एक आवेदन दिया गया है। लाइसेंस रद्द होने के बाद कंपनी को अपने नाम के साथ "फाउं डेशन" की जगह प्राइवेट "लिमिटेड" शब्द लगाना होगा।

) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 (4) (ii) के तहत प्रावधान के अनुसार लाइसेंस के निरसन के बाद कंपनी के प्रमुख उद्देश्य निम्नानुसार हों गे:

. विभिन्न गैर–सरकारी और सरकारी एजेंसियों, स्वास्थ्य के स्थानीय मंत्रालयों, विश्वविद्यालयों चिकित्सा सुविधाओं के चिकित्सकों, शिक्षकों, शोधकर्ताओं और निर्देशात्मक डिजाइनरों को परामर्श सेवाएं और तकनीकी सहायता प्रदान करने और काम करने के व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए एक कुशल स्वास्थ्य कार्यबल और भारत या विदेश में सुव्यवस्थित राष्ट्रीय स्वास्थ्य वितरण प्रणाली के विकास का समर्थन करने के लिए।

ख. अनुसंधान परियोजनाओं, सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रमों, स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रमों, समर्थित पोषण पहलों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, जांच कार्यक्रमों, स्वास्थ्य मूल्यांकन, परामर्श कार्यक्रमों, दंत स्वास्थ्य परियोजनाओं, स्कूल के बाद के युवा कार्यक्रमों और स्वास्थ्य शिविरों के साथ समर्थन सहायता या स्थापना के माध्यम से समाज के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य और / या कल्याण को बढ़ावा देने के लिए परियोजनाएं और / या कार्यक्रम शुरू करना।

ा. समाज के जरूरतमंद, गरीब और कमजोर सदस्यों को चिकित्सा उत्पादों और 🖊 या सेवाओं तक पहुंच प्रदान करके पिछड़े क्षेत्रों या ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक विकास के लिए अभियानों या कार्यक्रमों या परियोजनाओं की व्यवस्था करने का कार्य करना।

प्रस्तावित कंपनी के मसौदा ज्ञापन और लेखों की एक प्रति 401, चौथी मंजिल, नौरंग हाउस,

ए-ब्लॉक, 21 केजी मार्ग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली -110001, भारत में देखी जा सकती है। नोटिस यह दिया जाता है कि कोई भी व्यक्ति, फर्म, कंपनी, निगम, या निकाय कॉर्पोरेट, जो इस

आवेदन पर आपत्ति जताता है, इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों के भीतर दिल्ली में रजिस्टार को कंपनी रजिस्टार, दिल्ली और हरियाणा, **बौथी मंजिल, आईएफसीआई** टॉवर, 61, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019, दिल्ली, भारत, को संबोधित एक पत्र द्वारा ऐसी आपत्ति से अवगत करा सकता है जिसकी एक प्रति आवेदक को 401, चौथी मंजिल, नौरंग हाउस, ए—ब्लॉक, 21 केजी मार्ग, कनोंट प्लेस, नई दिल्ली —110001, भारत पर अग्रेषित की जाएगी।

आवेदक(कों)का नाम 1. उमापति मिश्रा 2. राकेश रंजन साह

दिनांक: 27.12.2023

9810550972/99999101000

प्रपत्र-3 [विनियम -15(1)(क)]/16(3) देखें

ऋण वसूली न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ (डीआरटी-2)

प्रथम तल, एससीओ 33-34-35, सेक्टर-17ए, चंडीगढ़, (तृतीय और चतुर्च तल पर भी अतिरिक्त स्थान आवंटित) वाद सं. ओए/2138/2021 अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के साथ पठित ऋण वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) नियमावली,

1993 के नियम 5 के उप-नियम (2क) के तहत सम्मन Exh. No. 21405 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बनाम मैसर्स परफेक्ट सॉल्यूशंस एवं अन्य

 मैसर्स परफेक्ट सॉल्यूशंस एवं अन्य पुत्री/पत्नी/पुत्र श्री अंकुर गोयल, मैसर्स परफेक्ट सॉल्यूशंस (प्रोप्राइटरशिप कंसनी), इसके प्रोपराईटर द्वारा श्री अंकुर गोयल, 975, बी/27, मदनपुरी, गुरुग्राम हरियोणा,

(2) श्री अंकूर गोयल पुत्र श्री बिशन कुमार गोयल, निवासी मकान नं. 561/28, लेन नं. 11, ज्योति पार्क, नुरुप्राम, हरियाणा-122001, ईमेल: solutionsperfect@gmail.com, Whatsapp No.:

जबिक, ओए/2138/2021 माननीय पीटासीन अधिकारी / रजिस्ट्रार के समक्ष 19-12-2023 को प्रस्तुत

जबकि, यह माननीय न्यायाधिकरण रू. 57,81,448,74 के ऋण की वसली के लिए आपके विरूद्ध दाखिल किए गए (ओ.ए.) के संबंध में, अधिनियम की धारा 19(4) के तहत, उक्त आवेदन पर सम्मन/नोटिस जारी करने का अनुग्रह कर रहा है। (दस्तावेजों आदि की प्रतियों के साथ आवेदन संलग्न)

अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के अनुसार आप प्रतिवादियों को निम्न निर्देश दिया जाता है:-(i) सम्मन की तामील के तीस दिन के भीतर कारण बताएं कि प्रार्थित राहत क्यों मंजूर नहीं की जाए;

(ii) मुल आवेदन के क्रमांक 3A के तहत आवेदक द्वारा विनिर्दिष्ट सम्पत्तियों तथा आस्तियों के अतिरिक्त सम्पत्तियों अथवा आस्तियों का विवरण, प्रस्तृत करें;

(iii) आप को, सम्पत्ति की कुर्की के लिए आवेदन की सुनवाई तथा आवेदन के निस्तारण के दौरान, प्रत्यामृत आस्तियों अथवा मूल आवेदन के क्रमांक 3A के तहत विनिर्दिष्ट सम्पत्तियों तथा आस्तियों के संबंध में संव्यवहार अथवा निपटान करने की मनाही की जाती है: (iv) आप किसी भी आस्ति जिस पर कोई प्रतिभृति हित सुजित किया गया है तथा√अथवा मूल आवेदन के

क्रमांक 3A के तहत आवेदक द्वारा विनिर्दिष्ट अथवा खुलासा की गई सम्पत्तियों तथा आस्तियों का अंतरण बिक्री, पट्टा अथवा अन्य प्रकार से, आपके व्यवसाय के साधारण कोर्स को छोड़कर, न्यायाधिकरण की प्रवं अनुमति के बिना, नहीं करेंगे: (v) आप व्यवसाय के साथारण कोर्स में प्रत्याभृत आस्तियों अथवा अन्य आस्तियों तथा सम्पत्तियों की बिक्री से

प्राप्त होने वाली राशि का हिसाब रखने तथा ऐसी बिक्री प्राप्तियां इन आस्तियों पर प्रतिभृति हित धारक बैंक अथवा वित्तीय संस्थाओं में अनुरक्षित खाते में जमा करने हेत् जिम्मेदार होंगे। आपको लिखित बयान दाखिल करने, उसकी प्रति आवदेक को मुहैया कराने तथा दिनांक 02/02/2024 को

पूर्वा. 10.30 बजे रजिस्ट्रार के समक्ष पेश हाने का भी निर्देश दिया जाता है, जिसमें असफल रहने पर आवेदन की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा।

मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर लगाकर 21-12-2023 को दिया गया। प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर सम्मन जारी करने हेत्

#### डीसीबी बैंक लिमिटेड

ए-सेट हाउस, 7/56, डी.बी. गूप्ता मार्ग, करोल बाग, नई दिल्ली-110005

## **DCB BANK** ई-नीलामी बिक्री सूचना

#### (प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 9(1) के अधीन) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों का प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन

अधिनियम, 2002 के अधीन अचल परिसम्पत्ति की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना। प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एतदद्वारा जनसाधारण और विशेष रूप से कर्जदार (रों), सह–कर्जदारों और गारंटरों को सूचित किया जाता है कि अधोवर्णित सम्पत्ति डीसीबी बैंक लिमिटेड के पास बन्धक रखी गई है। बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने सम्पत्ति का भौतिक कब्जा वित्तीय परिसम्पत्तियों का प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधान के अधीन प्राप्त कर लिया है। सम्पत्ति की बिक्री अधोवर्णित बकाया राशि और भावी ब्याज, प्रभारों और लागत इत्यादि की वसूली हेतु, निम्न विवरणों के अनुसार, निम्न वर्णितानुसार निविदा—सह—सार्वजनिक ई–नीलामी द्वारा की जाएगी :–

सम्पत्ति की बिक्री **''जैसी है जहां है'' और ''जैसी है जो है''** शर्त पर की जाएगी। कर्जदार तथा गारंटरों ई—नीलामी जमा (ईएमडी) की तिथि का प्रकार र्फ. 1.83.78.000 ∕ सांकेतिक र्फ. 18,37,800 ∕ − (इसके स्वामी श्री नितिन गुप्ता के (रू. एक करोड़ तिरासी लाख 30.01.2024 (रू. अठारह लाख सैंतीस हजार माध्यम से), शुभम गुप्ता और तान्या अठहत्तर हजार मात्र) आठ सौ मात्र)

सम्पत्ति 1 :- मोहल्ला बनवाता गूंज, वार्ड नंबर 53, बारादरी परगना जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश-244001 तथा सम्पत्ति 2 :- मोहल्ला रेती स्ट्रीट, वार्ड नंबर 28 परगना, जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश-244001

निरीक्षण की तिथि एवं समय : 16—01—2024 से 24—01—2024 पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 04.00 बजे तक, श्री निकुंज माथुर तथा श्री श्रीराम अय्यर से 9818979116 तथा 9953897878 पर पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 06.00 बजे के बीच सम्पर्क करें। ईएमडी जमा करने की तिथि एवं समय : 30-01-2024 को अथवा पूर्व अप. 05.00 बजे तक, प्रतिभागिता के अनुरोध पत्र केवाईसी, पैनकार्ड, ईएमडी के प्रमाण सहित ई—मेल आईडी nikunj.mathur@dcbbank.com, sriram.chandrasekar@dcbbank.com पर इच्छुक क्रेताओं / बोलीदाताओं को ईएमडी लाभार्थी, डीसीबी बैंक, लोअर परेल, के नाम में एनईएफटी / आरटीजीएस के माध्यम से खाता नाम – डीसीबी

बैंक लोन रिपेमेंट, खाता नंबर 90020900000170 आईएफएससी कोड डीसीबीएल0000037 में जमा करनी होगी। ई-नीलामी के नियम एवं शर्तें

(1) (ऊपर तालिका में वर्णित तिथियों को श्री टी. जय प्रकाश रेड्डी, सेल नंबर +91 8142000062 / 66, लैंड लाइन नंबर (040) 23736405, ई-मेल आईडी : prakash@bankauctions.in तथा info@bankauctions.in से उनके वेब पोर्टल : https://bankauctions.in तथा www.foreclosureindia.com पर सम्पर्क करें 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपनी बोली देने से पहले नीलामी बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए लिंक https://www.dcbbank.com/cms/showpage/page/customer-corner देखें।

(2) इच्छ्क बोलीदाताओं से पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत करवाना तथा नीलामी सेवा प्रदाता (www.foreclosureindia.com) लैंड लाइन नंबर (040) 23736405 से लॉगइन आईडी तथा पासवर्ड पर्याप्त अग्रिम में प्राप्त किया जाना अपेक्षित है, जो उपरोक्त ई–बिडिंग के लिए अनिवार्य है। संभावित बोलीदाता केवल अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।

(3) वेबसाइट पर ऑफर / निविदा दस्तावेज के साथ उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर नीलामी प्रक्रिया में ऑनलाइन ई–नीलामी प्रतिभागिता अनिवार्य है।

तिथि: 27-12-2023 स्थान : दिल्ली एनसीआर युपी

Place: Indore

Date: 26-12-2023

प्राधिकृत अधिकारी डीसीबी बैंक लिमिटेड

#### **BERYL SECURITIES LIMITED** Regd. Office.: 133, Kanchan Bagh Colony Indore - 452001 (M.P.)

CIN: L67120MP1994PLC008882, E-mail id: berylsecurities@gmail.com

## **JOINT PUBLIC NOTICE**

This notice is being issued jointly by Beryl Securities Limited (the "Company" or "Target Company"), Mr. Vineet Bajpai, Mr. Agam Gupta, Mr. Sanyam Jain (the "Acquirers") and Mrs. Rani Bajpai (PAC). and Mrs. Sangita Sethi, Mr. Sanjay Sethi, M/s. Sanjay B Sethi HUF, Mr. Sudhir B Sethi, M/s. Sudhir B Sethi HUF, M's. Babulal Sethi HUF, Mrs. Soniya Sethi and Mr. Sohi Sethi (the "Seller") pursuant to Non-Banking Financial Companies (Approval of Acquisition or Transfer of Control) Directions 2014, as amended and Master Direction No DNBR.PD.007/03.10.119/2016-17 Dated September 01, 2016 with respect to change in control and management of the Target Company and other necessary approval(s), if any.

Background The Company is a non-deposit taking ("NBFC-ND"), registered with the RBI in terms of the certificate of registration dated March 03, 1998 bearing reference number N- 03.00040, and having its registered office at 133, Kanchan Bagh Colony

Indore - 452001, Madhya Pradesh, India The Acquirers along with PAC are Individuals and acquired Equity Shares from shareholder of the company in the mandatory open offer made by acquire except this they does not have any other interest in the Target Company.

The Seller are the Promoters and Promoter Group of the Target Company, and as on date, holds 25,42,022 fully paid up Equity shares of the Company of face value of INR 10 each ("Equity Shares"), which represents 52.42% of the paid-up share capital of the Company.

## Proposed Transaction and Reason for Proposed Transaction

The Acquirers along with PAC seeks to acquires a stake of 78.42% of the paid-up share capital of the Company, subject to the actual tendering of Equity Shares by the public shareholders of the Company in the mandatory open offer made by the Acquirers along with PAC pursuant to the public announcement already made by acquirers dated May 02, 2023 ("Tender Offer") in accordance with the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, through a combination of: (a) The Acquirers have entered into a Share Purchase Agreement ("SPA") dated May 02, 2023 with Promoters and Promoter

Group of the Target Company for the acquisition of 25,42,022 fully paid up equity shares ("sale shares") of Rs. 10 each (face value) representing 52.42% (Fifty Two point Forty-Two Percentage) of the issued, subscribed, and paid up capital of the Target Company to be paid in cash

(b) Mandatory offer, being already made by the Acquirers along with PAC who already acquired equity share out of Public Shareholders of the Target Company after due compliance with Regulations 3(1) and Regulation 4 of the SEBI (SAST) Regulations, 2011 for acquisition of 12,60,922 (Twelve Lakhs Sixty Thousand Nine Hundred & Twenty Two) equity shares of the face value of 10 each, being 26.00% of the Issued, subscribed and paid up Share Capital of the Target Company, in accordance with the provisions of the SEBI (SAST) Regulations, 2011 out of which Acquirers along with PAC successfully acquired 396231 (Three Lakh Ninety Six Thousand Two Hundred Thirty One)) equity shares of the face value of 10 each, being 8.17% of the Issued, subscribed and paid up Share Capital of the Target Company.

Upon consummation of the Proposed Transaction, the Acquirer shall acquire control of the Company and Acquirers along with PAC assuming full acceptances in the offer and acquisition of shares in accordance with SPA and shares acquired in offer made would be 60.59 % of the paid up Equity Share Capital of the Target Company and shall also be classified as a 'promoter of the Company in accordance with applicable law.

RBI, vide Letters bearing ref, no. BPL.DOS.SED NO. S462/00-10-066/2023-2024 dated November 9, 2023 has granted approval and No Objection Certificate for the change in shareholding of the target company. This notice is issued in compliance

of regulation 64(1) and 64(2) of Master Direction No DNBR.PD.007/03.10.119/2016-17 Dated September 01, 2016.

A copy of this notice is also available on the Company's website at www.berylsecurities.com.

For and on behalf of For and on behalf of Acquirers **Beryl Securities Limited** 

Sudhir s Sethi Mr. Vineet Bajpal

> For and on behalf of Sellers Sudhir s Sethi

NIMBUS

# निम्बस प्रोजेक्ट्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः 1001-1006, 10वीं मंजिल, नारायण मंजिल, 23, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001

CIN: L74899DL1993PLC055470, फोन: 011-42878900 ईमेल : nimbusindialtd@gmail.com वेबसाईट : www.nimbusprojectsltd.com

## सार्वजनिक सूचना

एतद द्वारा सर्वसाधारण को भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 (अधिनियम) के अंतर्गत सूचित किया जाता है कि मैसर्स आईआईटीएल प्रोजेक्टस लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालयः 101ए, दि कैपिटल, प्लाट नं सी-70, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला काम्पलैक्स, बांद्रा (ईस्ट) मुंबई-40005। है, ने साझेदारी फर्म मैसर्स आईआईटीएल-निंबस दि एक्सप्रेस पार्क व्यू (उक्त फर्म) जिसका प्रमुख व्यवसाय स्थल 1010-1011, दसवां तल, नारायण मंजिल, 23 बाराखंबा रोड, नई दिल्ली–110001 जो कार्यालय रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, एनसीटी आफ दिल्ली एसडीएम (मुख्यालय) पूर्वी जिला से पंजीयन संख्याः डिस्ट्रिक्ट (ईस्ट)/फर्म (245) आफ 2011 द्वारा विधिवत पंजीकृत है, से स्वयं को स्वेच्छा से दिनांक 6 अक्टूबर 2023 से रिटायर कर लिया है।

आईआईटीएल प्रोजेक्टस लिमिटेड के रिटायरमेंट और नए साझेदार निंबस प्रोपमार्ट प्राईवेट लिमिटेड के उक्त फर्म में प्रवेश पर अमल करने के लिए पक्षकारों के बीच दिनांक 6 अक्टूबर 2023 को प्रवेश सह रिटायरमेंट की पूरक डीड (पूरक डीड) और त्रिपक्षीय करार हो चुका है।

उक्त फर्म (आईआईटीएल-निंबस दि एक्सप्रेस पार्क व्यू) के एक साझीदार के रूप में आईआईटीएल प्रोजेक्टस लिमिटेड के रिटायरमेंट के परिणामस्वरूप, सर्वसाधारण को इस नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि आईआईटीएल प्रोजेक्टस लिमिटेड 6 अक्टूबर 2023 से पहले या उसके उपरांत तीसरे पक्षकारों, उक्त फर्म के वर्तमान/निरंतर रहने वाले साझीदारों और फर्म के किसी भी कृत्य, साझेदारों द्वारा किये जाने वाले कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं होगी। सर्वसाधारण को पुनः सूचित किया जाता है कि 6 अक्टूबर 2023 से उक्त फर्म के पुर्नगठन उपरांत उक्त फर्म के निरंतर रहने वाले साझेदार और उक्त फर्म ही उक्त फर्म के साझेदारों द्वारा 6 अक्टूबर 2023 से पूर्व के अथवा बाद के सभी कृत्यों के लिए पूरी तरह स्वयं उत्तरदायी होंगे। इस नोटिस द्वारा सर्वसाधारण को यह भी सूचित किया जाता है कि 6 अक्टूबर 2023 से उक्त फर्म (आईआईटीएल-निंबस दि एक्सप्रेस पार्क व्यू) उक्त फर्म में केवल निंबस प्रोजेक्टस लिमिटेड एवं निंबस प्रोपमार्ट प्राईवेट लिमिटेड ही साझेदार हैं। दिनांक 26.12.2023

स्थानः नई दिल्ली। कृते व निम्बस प्रोजेक्टस लिमिटेड के वर्तमान साझेदारों की ओर से

#### डीसीबी बैंक लिमिटेड

ए-सेट हाउस, 7/56, डी.बी. गुप्ता मार्ग, करोल बाग, नई दिल्ली - 110005

DCB BANK

प्राधिकृत अधिकारी डीसीबी बैंक लिमिटेड

#### ई-नीलामी विक्रय सूचना (प्रतिमृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 9(1) के अंतर्गत)

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निमाण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों के विक्रयार्थ ई-नीलामी विक्रय सूचना।

एतदृद्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जनसाधारण को तथा विशेष रूप में उचारकर्ता(ओ), सह-उधारकर्ताओं और गारंटरों की सुकित किया जाता है कि निम्नलिखित संपत्ति जो डीसीबी बैंक लिमिटेड के पास बंधककृत है, उसका बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा। प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के प्रावधान के अंतर्गत भौतिक अधिग्रहण कर लिया गया है। अतः अब संपत्तियों का विक्रय, निम्नांकित बकाया देयराशियाँ की भावी ब्याज, शुल्कों और लागत इत्यादि के साथ वसूली करने के लिए निम्न वर्णितानुसार निविदा-सह-सार्वजनिक ई-नीलामी द्वारा, निम्न विवरणों के अनसार किया जाएगा संपत्तियों का विक्रय "जैसी हैं जहां हैं", और "जैसी हैं जो हैं" दशा पर किया जाएगा।

बन्धक सम्पत्ति को रीडीम (मोचन) कर सकते हैं।

क्र. सं.	उधारकर्ता एवं गारंटरों के नाम	आरक्षित मूल्य	धरोहर राशि जमा (धराज)	ई-नीलामी की तिथि	अधिप्रहण का प्रकार
1.	कुसुम शर्मा तथा सुशील कुमार	रु. 750000/- (रुपये सात लाख पवास हजार मात्र)	रु. 75000/- (रुपये पिचहतार हजार मात्र)	16-01-2024	मौतिक

निरीक्षण की तिथि एवं समय :- संपत्ति का 08-01-2024 से 12-01-2024 तक मध्या. 11.00 बजे से अप. 04.00 बजे तक। श्री निक्रुंग माधुर और श्री श्रीराम अययर से 9818979116 और 9953897878 पर मध्या, 11 से साथ 6 बजे के मध्य संपर्क करें। ईएमडी जमा करने की तिथि एवं समय 15-01-2024 को साथ 5 बजे तक अथवा इससे पूर्व, भागीदारी के अनुरोध पत्र, केवाईसी, पैन कार्ड, ईएमडी के प्रमाण के

साथ ईमेल आईडी nikunj.mathur@debbank.com, sriram.chandrasekar@debbank.com पर। इच्छुक क्रेताओं / बोलीदाताओं को लाभार्थी, डीसीबी के नाम पर डीसीबी बैंक लिमिटेड, लोवर परेल, खाता का नाम – डीसीबी बैंक लोन रिपेमेंट, खाता संख्या 90020900000170. आईएफएससी कोड DCBL0000037, पर एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से ईएमडी राशि जमा करनी होगी ई-नीलामी के नियम एवं शर्ते

(1) (श्री टी. जयरा प्रकाश रेड्डी, सेल नं. +91-814200062/66 लैंड लाइन नं. 040-23736406, ई-मेल आईडी : prakash@bankauctions.in एव info@bankauctions.in उनके वेब https://eauction.samil.in एवं www.foreclosureindia.com पर 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ उपरोक्त तालिका में उल्लिखित तिथियां पर संपर्क करें । बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि अपनी बोली जमा करने से पहले नीलामी बिक्री के विस्तृत नियम और शतें जार्चे, लिंक https://www.dcbbank.com/cms/showpage/page/customer-corner देखें। इच्छक बोलीदाताओं को पोर्टन पर खद को पंजीकृत करना होगा और नीलामी सेवा प्रदाता (www.foreclosureindia.com) लैंड लाइन नं, 040-23736405 से

प्रशिम में लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करना होगा, जो ई—बोलीदान के लिए अनिवार्य है। संभावित बोलीदातागण ई—नीलामी पर केवल अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। (३) वेबसाइट पर प्रस्ताव / निविदा प्रलेख के साथ उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में आवेदन करके नीलामी प्रक्रिया में ऑनलाइन ई-नीलामी में भाग लेना अनिवार्य है।

विनांक : 27-12-2023 स्थान : दिल्ली राराझे, यूपी

# एक्सिस बेक

रिटेल एसेटस सेंटर: प्रथम तल, जी-4/5 बी सेंटर-4, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ- 226010 रजिस्टर्ड ऑफिसः (त्रिशूल), तृतीय तल, समराथेश्वर मंदिर के सामने, लॉ गार्डन के पास, एलिसब्रिज, अहमदाबाद—380006 जबिक, अधोहस्ताक्षरी, ऐक्सिस बैंक लि0 के प्राधिकारी, न सिक्योरिटाइजशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनेन्शियल एसेट्स एण्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के अन्तर्गत तथा सिक्योरिटी इंटरेस्ट (इंफोर्समेंट) रूल, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत मांग नोटिस जारी किये गये। उक्त वर्णित उधारकर्ता राशि का भूगतान करने करने में असफल रहे है, अतः उक्त वर्णित उधारकर्ताओं को विशेष रूप से एवं सर्वसाधारण को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उन्हें उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त एक्ट की धारा 13(4) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कब्जा ले लिया है। उपरोक्त वर्णित उधारकर्ताओं को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को एतदुद्वारा सावधान किया जाता है कि उक्त सम्पत्ति के साथ कोई सौदा न करें तथा उक्त सम्पत्ति के साथ किया जाने वाला कोई सौदा एक्सिस बैंक लि0 के साथ उक्त नोटिस में वर्णित वार्षिक ब्याज, अनुशंगी व्यय, लागत, प्रभार इत्यादि समेत से प्रभावी, मॉर्टेगेज के विषयाधीन होगा। ऋणी/सह—ऋणी/बंधककर्ता एवं

जमानतकर्ता का ध्यान सरफेसी एक्ट की धारा 13(8) की ओर आकृष्ट किया जाता है कि तय समय सीमा में

खातेदार / गारन्टरों का नाम एवं पता	सुरक्षित सम्पत्तियों का विवरण	मांग नोटिस के अनु सार बकाया राशि मांग सूचना की ति कब्जे की तिथि
मोहम्मद आजम (ऋणी) पुत्र मोहम्मद इस्तियाक, मोहम्मद साहब (सह—ऋणी) पुत्र मोहम्मद इस्तियाक दोनों का पताः हरिजन बस्ती, संकटा देवी, लखीमपुर खेरी, लखीमपुर खेरी, उ०प्र०—262701, मोहम्मद सत्तार बक्स (सह—ऋणी) पुत्र मोहम्मद इस्तियाक, अल्ताफ बक्श (सह—ऋणी) पुत्र मोहम्मद इस्तियाक दोनों का पता 1— 549, नौरंगाबाद लखीमपुर खेरी, लखीमपुर खेरी उ०प्र0—262701, पता—2. ग्राम/मोहल्ला—नौरंगाबाद, वार्ड/परगना—नौरंगाबाद, डेवल्प्ड एरिया, तहसील लखीमपुर खेरी, जिला खेरी, उ०प्र0— 262905, मोहम्मद आदिल (सह—ऋणी) पुत्र मोहम्मद इस्तियाक पताः मकान नं० 14, नौरंगाबाद—1, नौरंगाबाद, पोस्ट लखीमपुर,य तहसील लखीमपुर, जिला खेरी, उ०प्र0— 262701	J	रू0 2081716.74 रू0 772844.00 दि. 07.06.2023 तक + देय ब्याज एवं अन्य खर्चे 07.06.2023 22.12.2023
श्री कुलदीप सिंह (ऋणी) पुत्र श्री राजवीर सिंह चौहान पताः मोहल्ला हॉलवाला, हसनपुर,	आवासीय / व्यावसायिक सम्पत्ति स्थित नगरपालिका नं0 34, वार्ड नं0 6, मोहल्ला होली	₹50 1674971.35 65671.20

वाला राजपूत कॉलोनी, कस्बा हसनपूर, जिला अमरोहा, हसनपुर, उ०प्र0—244241, श्रीमती अमरोहा, उ०प्र0— 244241, एरियाः 100.81 वर्ग ज्ञानवती देवी (सह-ऋणी) पुत्र राजीव सिंह मी., सम्पत्ति श्रीमती ज्ञानवती देवी के नाम चौहान पता-1. मोहल्ला हॉलवाला, हसनपुर, चौहददी-पूर्व- रामपुर भूद रोड, पश्चिम-अमरोहा, हसनपुर, उ०प्र0-244241, पता-2. विजेन्द्र एवं चिरंजी का प्लॉट, उत्तर- मास्टर नगरपालिका नं0 34, वार्ड नं0 6, मोहल्ला होली अशोक का प्लॉट, दक्षिण- श्रीमती प्रेमवती का वाला राजपूत कॉलोनी, कस्बा हसनपुर, जिला अमरोहा, उ०प्र0- 244241 मैं0 नारायन ट्रेक्टर्स (ऋणी) पताः गोला 1. आवासीय सम्पत्ति स्थित मोहल्ला न्यू श्यामपुरी, लखीमपुर खेरी, नगर पालिका खेरी बाजार, गोला गोकरन, लखीमपुर

(ਚਹਸ਼ਹ) 262802, पार्टनर्स श्री गौरव एवं श्री (ਚਹਸ਼ਹ) 262701, एरियाः 1050 वर्ग फीट, सम्पत्ति श्री महेन्द्र पाल के नाम। **चौहददी**-रोशन, गौरव वधावन (पार्टनर) पुत्र श्री महेन्द्र पूर्व- अनूप कुमार का मकान, पश्चिम-23 पाल पताः बरखेढ्वा, लखीमपूर खेरी (उ०प्र०) फीट चौड़ा रोड, उत्तर- श्रीमती सुशीला 262701, श्री रोशन वधावन (पार्टनर) पुत्र श्री राजबंशी का मकान, दक्षिण— श्री रोशन महेन्द्र पाल पता 1: राम नगर कॉलोनी, वधावन का मकान। लखीमपुर खेरी, खेरी (उ०प्र०) 262701 पता 2: मोहल्ला श्याम नगर, वार्ड श्याम 2. आवासीय सम्पत्ति स्थित मोहल्ला श्याम

नगर, वार्ड श्याम नगर, परगना, तहसील-नगर, परगना, तहसील-लखीमपुर खेरी लखीमपुर खेरी, खेरी-262701, एरियाः 1050 खेरी-262701, महेन्द्र पाल (गारण्टर) पुत्र वर्ग फीट, सम्पत्ति श्री रोशन वधावन के नाम। कीमत राय पता 1: राम नगर कॉलोनी, चौहददी-पूर्व- अन्य का मकान, पश्चिम-3.65 मी. चौडा रोड, उत्तर- श्री महेन्द्र का मकान, दक्षिण- 4.57 मीटर चौडा रोड।

लखीमपुर खेरी, खेरी (उ०प्र०) 262701, पता 2ः मोहल्ला न्यू श्यामपुरी, लखीमपुर खेरी, नगर पालिका खेरी (उ०प्र०) 262701 श्री मोहन टोलानी (ऋणी) पुत्र स्व० श्री आवासीय/व्यावसायिक सम्पत्ति स्थित मकान नं0 655 / 617, नई बस्ती, सिटी लखीमपुर

सीताराम टोलानी पता 1: नई बस्ती-3, नगर पालिका परिषद, तहसील-लखीमपुर खेरी, जिला खेरी, उ०प्र0-262701, एरियाः 361.42 वर्ग मीटर, सम्पत्ति स्व0 श्री सीता राम जिला-खेरी, उ०प्र0-262701, पता 2: मकान नं0 655 / 617, नई बस्ती, सिटी लखीमपुर

दिनांकः 27.12.2023

टोलानी के नाम। चौहद्दी-पूर्व- अर्जुन दास केशवानी का मकान, पश्चिम- गली 5 जिला खेरी. उ०प्र0-262701 फीट, उत्तर— रास्ता 12 फीट, दक्षिण-श्री विजेन्द्र सिंह (ऋणी) पुत्र श्री हरिया पताः भूमि / सम्पत्ति प्लॉट न्यू आबादी खसरा नं0

831 का भाग, मौजा नंदगाँव, तहसील छाता, भूरादिवा मोहल्लो, नंदगाँव (रूरल), मथुरा जिला मथुरा, एरियाः 167.22, सम्पत्ति श्रीमती उ०प्र० 281403, श्रीमती रजनी देवी (सह-रजनी देवी के नाम। चौहददी-पूर्व-पहाडी, ऋणी) पत्नी श्री विजेन्द्र सिंह पताः 595 पश्चिम- रोड कमन नंदगाँव, उत्तर- राम भूरादिवा मोहल्लो, नंदगाँव (रूरल), तहसील हरि की सम्पत्ति, दक्षिण– बच्चू की छाता, मथुरा उ०प्र० 281403

25.08.2023 21.12.2023 सम्पत्ति । प्राधिकृत अधिकारी, एक्सिस बैंक लि0

Lucknow

दि. 17.05.2023 तक

+ देय ब्याज

एवं अन्य खर्च

19.05.2023

22.12.2023

₹0 35,60,240.54

₹50 40,65,812.00

दि. 23.01.2023 तक

+ देय ब्याज

एव अन्य खर्च

30.01.2023

22.12.2023

₹ 1277206.84

दि. 06.07.2023 तक

+ देय ब्याज

एवं अन्य खर्चे

10.07.2023

22.12.2023

₹ 1165956.00

₹ 19543.90

दि. 23.08.2023 तक

+ देय ब्याज

एवं अन्य खर्च

www.readwhere.com

as a Director (Non-Executive, Non-Independent) of the Company

By Lorenzini Apparels Limited

# अति अल्पकालीन निविदा सूचना

। अधोहस्ताक्षरी को होगा।

क्रम		आवश्यक सामग्री		
संख्य				
1	मैन रोड से हरीराम के मकान तक नाली व इण्टरलाकिंग,			
l	मिट्टी कार्य मनरेगा से। अनु.ला. 3.995 लाख।			
2	रामचन्द्र के मकान से भग्गा महातिया के मकान तक	रेता/ बजरी/		
l	इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य। अनु.ला 4.95 लाख।	मौरंग/ महीन		
3	हवलदार के मकान से भमरा रोड तक इण्टरलाकिंग निर्माण	रे्ता, ईंट, ईंट		
l	कार्य। अनु. ला 4.08 लाख	रोड़ी, बजरी,		
4	मेन रोड से गुड्डू वर्मा के मकान तक इण्टरलाकिंग निर्माण	इण्टरलाकिंग		
	कार्य। अनु. ला 0.664लाख	ब्लॉक		
5	दीपू के मकान से तालाब तक नाली निर्माण कार्य।	1		

धर्मेन्द्र मिश्र, सचिव आशाराम ग्राम प्रधान